

नकद मार्जिन आवश्यकता:

ग्राहक का प्रकार	मार्जिन संरचना
बैंक के साथ कार्यकारी खाते वाली क्रेडिट सीमा वाले ग्राहक नकद/टॉम/स्पॉट सीमा चाहते हैं	शून्य
उसी दिन की नकद सीमा चाहने वाले देयता ग्राहक के लिए।	(मार्जिन निर्धारित की जाने वाली सीमाओं के % के रूप में बताए गए हैं) <u>व्यक्तिगत ग्राहक के लिए नकद मार्जिन</u> (यदि एमएबी >= रु 1.00 लाख) - शून्य – यूएसडी 1.00 लाख तक की सीमाओं के लिए - 1% - यूएसडी 1.00 लाख से अधिक की सीमाओं के लिए (यदि एमएबी < रु 1.00 लाख) - निर्धारित की जाने वाली सीमा का 1% <u>व्यक्तिगत के अलावा</u> - शून्य – यूएसडी 50,000 तक की सीमाओं के लिए - 1% - यूएसडी 50,000 से अधिक की सीमाओं के लिए <i>एफएक्स लेनदेन वाले शाखा के नियमित ग्राहकों के लिए निर्धारित की जाने वाली सीमाएं</i>
टॉम/ स्पॉट (टी+1)/(टी+2) सीमाएं चाहने वाले देयता ग्राहक के लिए।	<u>व्यक्तिगत ग्राहक के लिए</u> (यदि एमएबी >= Rs 1.00 लाख) - शून्य – यूएसडी 1.00 लाख तक की सीमाओं के लिए - 2% - यूएसडी 1.00 लाख से अधिक की सीमाओं के लिए (यदि एमएबी < रु 1.00 लाख) - निर्धारित की जाने वाली सीमा का 2%. <u>व्यक्तिगत के अलावा</u> - शून्य - यूएसडी 50,000 तक - 2% - यूएसडी 50,000 से ऊपर की सीमा

पोर्टल पर फोरवार्ड सीमा हेतु किसी भी ग्राहक के लिए	बैंक की मौजूदा नीति के अनुसार एलईआर आवश्यकता। (कृपया आगे के विवरण के लिए अपनी संबंधित (रिलेशनशिप) शाखा/संबंध प्रबंधक (रिलेशनशिप मैनेजर) से संपर्क करें)
--	---

अन्य दस्तावेजों के अनुपालन उपरांत और बैंक के विवेकाधीन, अनुरोधित सीमा प्रदान करने के लिए बैंक को सक्षम करने के लिए ग्राहक द्वारा चालू खाते की शेष राशि पर ग्रहणाधिकार/ सावधि जमा के रूप में लागू नकद मार्जिन रखा जाना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी संबंधित शाखा से संपर्क करें।